

तुरंत रिलीज के लिए

ब्रैम्पटन ट्रांज़िट कोविड-19 से सुरक्षा के लिए 100,000 मास्क बांटेगा

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (11 जून, 2020) –10 जून को, मेयर पैट्रिक ब्राउन ने काउंसिल की ओर से, ऐलान किया कि, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट (Brampton Transit), 22 जून वाले सप्ताह से शुरू करते हुए, मास्कों के खत्म होने तक, अपनी सवारियों को 100,000 गैर-मेडिकल मास्क (कपड़े के बने साधारण मास्क) मुफ्त बांटेगा। यह सिटी ऑफ ब्रैम्पटन को दुबारा खोलने और बहाली योजना के पहले कदम के तौर पर किया जाएगा।

गैर-मेडिकल मास्क, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट के ब्रैमली (Bramalea), ब्रैम्पटन गेटवे (Brampton Gateway) और डाउनटाउन (Downtown) टर्मिनल्स में बांटे जाएंगे।

अधिक विवरणों का ऐलान, आने वाले सप्ताहों में किया जाएगा।

पील पब्लिक हेल्थ (Peel Public Health) और ओनटैरियो सरकार (Government of Ontario) की, पब्लिक ट्रांज़िट पर मास्क पहनने की सलाह का पालन करते हुए, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट की सवारियों को पुरजोर सलाह दी जाती है कि वे इस समय, बसों पर और टर्मिनल्स पर गैर-मेडिकल मास्क पहनें। ब्रैम्पटन ट्रांज़िट की सवारियों और ऑपरेटर्स के लिए, 2 जुलाई से गैर-मेडिकल मास्क पहनना जरूरी होगा, जब किराए की अदायगी और आगे के दरवाजे से चढ़ना (फ्रंट डोर बोर्डिंग) दुबारा बहाल किया जाएगा।

हालांकि मास्क जरूरी होंगे, लेकिन दो साल से कम उम्र के बच्चों या विकलांगों या जो लोग अन्य मेडिकल स्थितियों के कारण मास्क नहीं पहन सकते, उनके लिए मास्क पहनना जरूरी नहीं होगा।

गैर-मेडिकल मास्कों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, पील पब्लिक हेल्थ की [वेबसाइट \(website\)](#) और ओनटैरियो सरकार की [वेबसाइट \(website\)](#) पर जाएं। इस जानकारी में शामिल है, आपके गैर-मेडिकल मास्क को अच्छी तरह से कैसे पहनना है, फिट करना है, हटाना और साफ करना है।

कोविड-19 से सुरक्षा संबंधी उपाय

अधिक बार सफाई और सैनिटाइज़ करने का शेड्यूल पहले की तरह ही प्रभावी रहेगा। हर 48 घंटों में सभी ठोस सतहों, ऑपरेटर कम्पार्टमेंट्स और सीटों को रोगाणु मुक्त करना, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट का लक्ष्य है। इस समय अधिकतर बसों को हर 24 घंटों में सैनिटाइज़ किया जा रहा है। जिन फैसिलिटीज और टर्मिनल्स की ठोस सतहें हैं, उन्हें रोज़ाना पोंछा जा रहा है और सैनिटाइज़ किया जा रहा है।

सिटी का, सवारियों से अनुरोध है कि वे मास्क पहनकर भी, बसों में, टर्मिनल्स पर और बस स्टॉप्स पर लगातार शारीरिक दूरी कायम रखें। सवारियों को यह भी याद दिलाया जाता है कि वे सफर करते समय हैंड सैनिटाइज़र या वाइप्स जैसे खुद के रोगाणु नाशक पदार्थ साथ में रखें, बार-बार अपने हाथ धोएं और खांसते या छींकते समय मुंह को अपनी कोहनी से ढक लें।

पील पब्लिक हेल्थ के मार्गदर्शन से, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन हर किसी को गैर-मेडिकल मास्क पहनने की सलाह देती है, खास करके उन जगहों पर, जहां शारीरिक दूरी रखना मुश्किल हो सकता है। सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, जोखिमों का लगातार निरीक्षण करने के लिए पील पब्लिक हेल्थ (Peel Public Health) और ब्रैम्पटन एमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफिस (Brampton Emergency Management Office) में अपने साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रही है। नियमित अपडेट्स के लिए www.brampton.ca/covid19 पर जाएं और सेवा अपडेट्स के लिए bramptontransit.com पर जाएं अथवा Twitter पर @bramptontransit को फॉलो करें। सवाल सीधे ब्रैम्पटन ट्रांज़िट के संपर्क केंद्र (Contact Centre) से 905.874.2999 पर पूछे जा सकते हैं।

हवाले

“मुझे यह ऐलान करते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि हम ब्रैम्पटन ट्रांज़िट टर्मिनल्स पर, सवारियों को 100,000 गैर-मेडिकल मास्क बांटेंगे। यदि आप ब्रैम्पटन ट्रांज़िट की सवारी हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप गैर-मेडिकल मास्क प्राप्त करें और बसों और टर्मिनल्स पर उसे पहनें। इस बारे में पील पब्लिक हेल्थ और ओनटैरियो सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें कि हर किसी के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए, आपके गैर-मेडिकल मास्क को अच्छी तरह से कैसे पहनना है, फिट करना है, हटाना और साफ करना है।”

पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“स्वास्थ्य और सुरक्षा, हमारी सिटी काउंसिल की प्राथमिकता है, खास तौर पर जब कोविड-19 के दौरान, निवासियों को सुरक्षित रूप से गतिशील रखने की बात आती है। हम सवारियों के लिए, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट पर सफर करते समय गैर-मेडिकल मास्क लेने को आसान बना रहे हैं – यह मास्क खत्म होने तक, इन्हें प्राप्त करना आपके रोज़ाना सफर जितना ही आसान है।”

- *रोएना सैंटोस (Rowena Santos), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; चेयर, कम्युनिटी सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“चूंकि सिटी ऑफ ब्रैम्पटन दुबारा खुल रही है और कोविड-19 से बाहर आ रही है, हम हमारे समुदाय के लिए स्वस्थ और सुरक्षित ट्रांज़िट सेवा प्रदान करने के लिए समर्पित हैं। पील पब्लिक हेल्थ और ओनटैरियो सरकार की सलाह से, हम इन मास्कों को, स्वस्थ और सुरक्षित तरीके से सवारियों को देने के लिए सभी जरूरी उपाय कर रहे हैं।”

डेविड बैर्रिक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](https://twitter.com/bramptontransit), [Facebook](https://facebook.com/bramptontransit), और [Instagram](https://instagram.com/bramptontransit) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोआर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca